

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 692]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2017—पौष 5, शक 1939

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-53-एनएन-01-2017-पांच-1068.—राज्य के नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषदों में परिशिष्ट-एक में अंकित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2017 हेतु आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:—

क्र.	कार्यवाही	सम्बंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	21, 22	27-12-2017 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के सम्बंध में सूचना का प्रकाशन.	22(क)	27-12-2017 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	27-12-2017 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
2	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21(क)	3-1-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21(ख)	4-1-2018 (गुरुवार)	प्रातः 10:30 बजे से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21(ग)	6-1-2018 (शनिवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आंवटन	30, 31	6-1-2018 (शनिवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	17-1-2018 (बुधवार)	प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक.
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21(ङ)	20-1-2018 (शनिवार)	प्रातः 9:00 बजे से.

हस्ता./-  
(सुनीता त्रिपाठी)  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-53-एनएन-01-2017-पांच-1069.—राज्य के नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषदों में परिशिष्ट-एक में अंकित नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2017 (उत्तरार्द्ध) हेतु आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:—

क्र.	कार्यवाही	सम्बंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	21,22	27-12-2017 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के सम्बंध में सूचना का प्रकाशन.	22(क)	27-12-2017 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	27-12-2017 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
2	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख.	21(क)	3-1-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21(ख)	4-1-2018 (गुरुवार)	प्रातः 10: 30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.	21(ग)	6-1-2018 (शनिवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आंवटन.	30, 31	6-1-2018 (शनिवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	17-1-2018 (बुधवार)	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक.
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21(ङ)	20-1-2018 (शनिवार)	प्रातः 9:00 बजे से.

हस्ता./-  
(सुनीता त्रिपाठी)  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-53-एनएन-01-2017-पांच-1070.—राज्य के नगर परिषद् अकोड़ा जिला भिण्ड, नगर परिषद् करनावद जिला देवास एवं नगर परिषद् खिलचीपुर जिला राजगढ़ के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने हेतु निर्वाचन वर्ष 2017 हेतु आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

क्र.	कार्यवाही	सम्बंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75-ग 75-घ	27-12-2017 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
2	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75-ङ	27-12-2017 (बुधवार)	उपरोक्तानुसार
3	प्रतीकों का आवंटन	75-च 75-छ	27-12-2017 (बुधवार)	उपरोक्तानुसार
4	मतदान	75-ग (एक)	17-1-2018 (बुधवार)	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक.
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा.	75-ग (दो) 75-ज	20-1-2018 (शनिवार)	प्रातः 9: 00 बजे से.

हस्ता./-  
(सुनीता त्रिपाठी)  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.